

**-:प्रेस नोटदिनांक 30.06.2021:-**

**थाना फरीदपुर जनपद बरेली ।**

**थाना फरीदपुर #Bareillypolice द्वारा अफीम की तस्करी करने वाले दो अपराधियों किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 110 ग्राम अफीम ( अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1,10,000/- ₹0) बरामद ।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के आदेशानुसार मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के मार्गदर्शन तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी फरीदपुर महोदय के कुशल नेतृत्व में फरीदपुर पुलिस टीम द्वारा अफीम की तस्करी करने वाले दो अपराधियों को अफीम सहित गिरफ्तार किया गया।

यह है कि दिनांक 29.06.2021 को थाना हाजा से पुलिस टीम गश्त व तलाश वांछित अपराधी गण में खाना होकर थाना क्षेत्र में मामूर थी। पुलिस टीम जब गश्त करते मुखर्जी पेट्रोल पम्प से पहले तहसीनी बैल्डिंग वर्क शाँप के सामने पहुँचे तो रोड के उत्तर दिशा में सिरस के पेड़ के पास दो व्यक्ति खड़े दिखे शक होने पर हम पुलिस वालों ने टार्चों की रोशनी डालते हुये इन दोनो व्यक्तियों को टोका तो दोनो व्यक्ति एक दम भागने का प्रयास करने लगे पुलिस टीम द्वारा घेर घोटकर दबिश देकर आवश्यक बल प्रयोग कर दोनो व्यक्तियों को मौके पर ही समय करीब 20.50 बजे पकड लिया। पकडे जाने पर नियमानुसार जामा तलाशी ली गयी तो पकडे अपराधियों से भारी मात्रा में (110 ग्राम) अफीम बरामद हुयी। नियमानुसार इन पकडे अफीम तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए अभियोग पंजीकृत किये गये।

**अफीम तस्करों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण**

1-मु0अ0सं0 324/21 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट बनाम सालिक राम पुत्र नन्हे लाल नि० ग्राम कुईया सहपुरा थाना फरीदपुर जिला बरेली

2-मु0अ0सं0 325/21 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट बनाम फईम पुत्र नत्थू नि० ग्राम पचौमी थाना फरीदपुर जिला बरेली

**घटनास्थल**

मुखर्जी पेट्रोल पम्प के पास कस्वा व थाना फरीदपुर जिला बरेली

**गिरफ्तार अभियुक्त गणों का विवरण**

1- सालिक राम पुत्र नन्हे लाल नि० ग्राम कुईया सहपुरा थाना फरीदपुर जिला बरेली

2- फईम पुत्र नत्थू नि० ग्राम पचौमी थाना फरीदपुर जिला बरेली

**बरामदगी का विवरण:-**

अभियुक्तगणों के कब्जे से कुल 110 ग्राम अफीम बरामद

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1-उ0नि0 श्री राजकुमार थाना फरीदपुर जिला बरेली

2-उ0नि0 श्री नवीन कुमार थाना फरीदपुर जिला बरेली

3-हे0का0 834 अर्जुन सिंह थाना फरीदपुर जिला बरेली

(सुरेन्द्र सिंह पचौरी)

प्रभारी निरीक्षक

थाना फरीदपुर, बरेली ।